



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2451]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 3, 2010/अग्रहायण 12, 1932

No. 2451]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 3, 2010/AGRAHAYANA 12, 1932

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2010

का.आ. 2889(अ).—केन्द्र सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 24 फरवरी, 1982 के सं. का.आ. 92(अ) के अंतर्गत जारी और बाद में, दिनांक 10 मार्च, 1992 की अधिसूचना सं. का.आ. 199(अ) द्वारा इसमें संशोधन (प्रथम संशोधन) किए जाने के पश्चात्, भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय (पत्तन स्कंध) की अधिसूचना में, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन (दूसरा संशोधन) करती है।

2. उक्त अधिसूचना की तालिका के कॉलम 1 में, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"उप सचिव/उप मुख्य लेखा अधिकारी/
सचिव/उपाध्यक्ष/अध्यक्ष
मुरगाँव पत्तन न्यास,
मुरगाँव (गोवा)"

3. यह नियुक्ति, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. ए-12011/2/2009-पीई-II]

राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2010

S.O. 2889(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendments (second amendment) in the notification of the Government of India, Ministry of Shipping (Ports Wing) issued under No. S.O. 92(E) dated the 24th February, 1982 and subsequent amendments (first amendment) made thereafter to it, vide Notification No. S.O. 199(E) dated 10th March, 1992.

2. In the Table to the said notification, in column 1, the entry will be replaced by following, namely :—

"Deputy Secretary/Deputy Chief Accounts
Officer/Secretary/Deputy Chairman/Chairman,
Mormugao Port Trust,
Mormugao (Goa)"

3. The said appointment shall come into effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F.No. A-12011/2/2009-PE-II]

RAKESH SRIVASTAVA, Jt. Secy.